

Ref: PNBHFL/SE/EQ/FY24/117

Date: March 28, 2024

The BSE Limited, Listing Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 540173 The National Stock Exchange of India Limited, Listing Department "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 **Symbol**: PNBHOUSING

Dear Sir(s),

Subject: Newspaper Publication - Postal Ballot

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in Business Standard (English and Hindi edition) regarding Postal Ballot Notice and e-voting Information.

The same is also available on the website of the Company i.e. www.pnbhousing.com,

Kindly take the above intimation on record.

Thanking You,

Yours faithfully, For PNB Housing Finance Limited

Veena G Kamath Company Secretary

Encl: As above.

Regd. Office: 9th Floor, Antriksh Bhavan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110 001 Phone: 011 – 23736857, E-mail: <u>investor.services@pnbhfl.com</u>, Website: <u>www.pnbhousing.com</u> CIN: L65922DL1988PLC033856

केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, ईडी से 2 अप्रैल तक मांगा जवाब

ल्ली उच्च न्यायालय ने बधवार को अाबकारी नाति चाटारा ... धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया तथा 2 अप्रैल से पहले उससे जवाब मांगा। न्यायमुर्ति शर्मा ने रिहाई की अंतरिम राहत देने के केजरीवाल के अनुरोध पर भी ईडी का रुख जानना चाहा। न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि अंतिम निस्तारण के लिए इस विषय पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्थगन नहीं लगाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने ईडी को अपने जवाब की डिजिटल एवं मुद्रित प्रति याची के वकील को देने का निर्देश दिया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उच्च न्यायालय से उन्हें तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले एक वर्तमान मख्यमंत्री की गिरफ्तारी संविधान के मल ढांचे के विरुद्ध है। उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से कहा, 'गिरफ्तारी का मकसद संबूत ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को पंगु बनाना था। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा किया जाए।' ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि कई पन्नों वाली याचिका (की प्रति) मंगलवार को ही ईडी को दी गई है और उस पर उसका (ईडी का) रुख सामने लाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत संबंधी अनुरोध पर भी जवाब के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए।

इस बीच, संभावना है कि ईडी केजरीवाल को उनकी हिरासत खत्म होने पर गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश करे। पिछले शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था। न्यायाधीश बावेजा की अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि केजरीवाल को 28 मार्च को 2 बजे पेश किया जाए। ईडी अदालत से मुख्यमंत्री की हिरासत बढ़ाने या फिर न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध कर सकती है।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन का है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।



अमेरिकी राजनियक को भारत ने किया तलब



ग्लोरिया बर्बेना

भारत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी की टिप्पणी को लेकर बुधवार को अमेरिका की एक राजनयिक को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्रालय

अधिकारियों ने अमेरिकी मिशन की कार्यवाहक उप प्रमख ग्लोरिया बर्बेना को साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में तलब किया था। बैठक 30 मिनट से ज्यादा चली। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि वाशिंगटन 'मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध काननी प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है।' भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा, 'हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाही के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।' बयान में कहा गया है, 'कूटनीति में, राष्ट्रों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। मित्र लोकतंत्रों के मामले में यह जिम्मेदारी और भी अधिक है। अन्यथा यह हानिकारक मिसाल कायम कर सकता है।' बयान के मुताबिक, भारत की कानूनी प्रक्रियाएं 'स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं जो उद्देश्यपूर्ण और समयबद्ध परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है।'

दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी: उपराज्यपाल

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी। सक्सेना की यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के उन बयानों की पृष्ठभूमि में आई,



जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आप नेताओं ने कई मौकों पर केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया और जोर देकर कहा कि वह जेल के अंदर से अपनी सरकार चलाएंगे। एक सम्मेलन में सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा, 'मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कर सकता हं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी।

केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी की हिरासत से अपना दूसरा कार्य आदेश जारी किया और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में लोगों के लिए दवाएं और जांच व्यवस्था उपलब्ध हों। इससे पहले रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) सप्रीमो ने जल मंत्री आतिशी को शहर के कुछ इलाकों में पानी और सीवर संबंधी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए थे।

पंजाब में आप सांसद और विधायक भाजपा में शामिल

अभिजित कुमार

आम आदमी पार्टी को पंजाब में तगड़ा झटका लगा है। उसके जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम से विधायक शीतल अंगराल बधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोक सभा में आप के इकलौते सांसद रिंकू को पार्टी ने इस बार भी इसी सीट से मैदान में उतारा था।

आप पर लोगों के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए रिंकू ने दावा किया कि पंजाब में सत्ताधारी पार्टी विकास कार्यों में उनका सहयोग नहीं कर रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि केंद्र सरकार ने देश में विकास का माहौल कायम किया है। उन्होंने कहा, 'देश

विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जबिक पंजाब को पीछे धकेल दिया रिंकू ने पार्टी पर लगाए और गृह मंत्री सराहा अमित शाह का

गया है। सांसद के कई आरोप, प्रधानमंत्री पर मुझे **मोदी व गृह मंत्री शाह** प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली को काम देखने का मौका मिला। मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ।' रिंकू पिछले साल ही जालंधर सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस

🔳 जालंधर से पार्टी

सांसद सुशील कुमार

का हाथ छोड़ कर आप में शामिल हुए थे। उन्हें गलत व्यवहार के कारण पिछले साल अगस्त में लोक सभा से निलंबित कर दिया गया था। इस बीच आप विधायक शीतल अंगुराल ने भाजपा का दामन थामते हुए कहा, 'अब आप की पोल खोलने का समय आ गया है। सत्ताधारी पार्टी ने पंजाब के लोगों से झुठ बोला था। मैं शीघ्र ही ऑपरेशन लोटस से संबंधित सबूत सामने लाऊंगा।'आप के लिए पंजाब से दोहरे झटके की खबर ऐसे समय आई है जब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पंजाब में आप के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने आरोप लगाया कि रिंकू ने पार्टी और जालंधर के लोगों

मोदी की बंगाल के प्रत्याशी से बातचीत

गरीबों से लूटा धन वापस दिलाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से 'लूटा गया' और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क किया गया धन जनता को वापस मिले। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने बताया कि मोदी ने कृष्णानगर लोक सभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्टी की उम्मीदवार और पूर्ववर्ती राजघराने की सदस्य अमृता राँय के साथ टेलीफोन पर बातचीत में यह बात कही।

भाजपा के एक नेता ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने 'राजमाता' अमृता रॉय से कहा कि भ्रष्टाचारियों ने आम जनता का पैसा लूटा है और ईडी ने उन भ्रष्टाचारियों से जो भी संपत्ति और धन जब्त किया है, उसे गरीब जनता को वापस दिया जाए. यह सुनिश्चित करने के लिए वह काननी विकल्प तलाश रहे हैं।'रॉय 18वीं सदी के स्थानीय राजा कृष्णचंद्र रॉय के परिवार से हैं।

भाजपा नेताओं के अनुसार, मोदी ने कहा कि एक तरफ वर्तमान केंद्र सरकार देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है तो दसरी तरफ सारे भ्रष्ट एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। प्रधानमंत्री और रॉय के बीच हुई बातचीत का विवरण देते हुए पार्टी के नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री का अनुमान है कि राज्य में नौकरी पाने के लिए रिश्वत के रूप में दी गई राशि करीब 3,000 करोड़ रुपये है। मोदी ने रॉय से कहा कि वह लोगों को इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद वह ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि लोगों के पैसे वापस मिलें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कानूनी विकल्प भी तलाशा जाएगा। मोदी ने भ्रष्टाचार के एक के अनर्गल आरोप लगाएंगे। भाषा



मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें समर्थन देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ शिकायत की थी, उन्होंने अब अपना रुख बदल लिया है। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, 'यह दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता देश नहीं बल्कि सत्ता है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा नीत गठबंधन यवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए लंड रहा है जबकि सभी भ्रष्ट एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ

मोदी ने उन लोगों पर पलटवार भी किया जिन्होंने भाजपा द्वारा उन्हें (रॉय को) उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कथित तौर पर अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए इस राजघराने पर निशाना साधा। रॉय ने मोदी से कहा कि उनके परिवार को 'देशद्रोही' कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृष्णचंद्र रॉय लोगों के लिए काम करते थे और उन्होंने 'सनातन धर्म' को बचाने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिलाया था।मोदी ने रॉय से कहा कि वह ऐसे आरोपों से कर्ताई परेशान ना हों। उन्होंने कहा कि वे (तृणमूल) वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सभी प्रकार

उद्धव ने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को 17 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी और कहा कि वह राज्य की कुल सीट में से 22 सीट पर चनाव लडेगी। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत गीते को रायगड और अरविंद सावंत को दक्षिण मंबई लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी ने सभी पांचों निवर्तमान सांसदों को फिर से मैदान में उतारा है जो 2022 में संगठन के विभाजन के बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ थे। इन सांसदों में अरविंद सावंत (दक्षिण मुंबई), राजन विचारे (ठाणे), विनायक (रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग), ओमराजे निंबालकर (धाराशिव) और संजय जाधव (परभणी) हैं।

पार्टी के नेता संजय राउत ने बताया कि शिवसेना (उद्धव) ने मुंबई दक्षिण-मध्य सीट से राज्यसभा



सदस्य अनिल देसाई को मैदान में उतारा है। देसाई का कार्यकाल अगले माह खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी ने मुंबई से चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में सत्ता-साझेदारी समझौते को लेकर अविभाजित शिवसेना के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होने के बाद सावंत ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विचारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र ठाणे का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विजयन की बेटी पर धन शोधन का मामला दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन, उनके स्वामित्व वाली आईटी कंपनी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। यह मामला एक निजी खनिज फर्म द्वारा वीणा और उनकी कंपनी को किए गए कथित अवैध भुगतान से संबंधित है। आधिकारिक सुत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। भाषा

कंगना-ममता पर टिप्पणी, नोटिस जारी

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओं नोटिस जारी किया। रनौत को भाजपा ने आम चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश की मंडी लोक सभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने घोष और श्रीनेत की टिप्पणियों को 'अशोभनीय और गलत' बताया। आयोग ने कहा कि



अभिनेत्री कंगना रनौत

प्रथम दृष्टया, दोनों टिप्पणियां आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को गरिमा बनाए रखने की सलाह का उल्लंघन हैं।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस

. 167-169, दूसरी मंजिल, अन्न : 600015, फोन: 044-30079113

त्रापक तौर पर जनता को सचित करना है कि मैसर हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. यह सार्वजनिक सचना जारी करता है। नीचे सचीबद्ध हमारी एक शाखा नए पते पर स्थानांतरित हो गई है। परानी शाखा का पताः प्लॉट नं. 341, दसरी मंजिल

सभी मौजूदा ग्राहकों से अनुरोध है कि वे नई शाखा के

पते पर जाएं/संपर्क करें: दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 75 सामने रोटरी बिनानी सभागार, शॉपिंग सेंटर, कोटा इस संबंध में हुई किसी भी असुविधा के लिए अत्यंत

निविदा आईडी: 2024_NHPC_800202_1

बोलियां आंमत्रित की जाती है।

ई-मेल: contcivil1-co@nhpc.nic.in

Supply of 11KV Pole Mounted

Circuit Breaker

चेन्नई - सीओ

सार्वजनिक सूचना

को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीम । पत्नी श्री अमरजीत सिंह बैंस ने पश्चिम विहार, जीत बैंस उक्त संपत्ति को सुमित धाम को बेच रही हैं सुमित धाम ने वित्तीय सहायता के लिए आईडीबीआई

तिथि: 15.03.2024

महाप्रबंधक (सीसी-I)

22 04 2024:1500 Hrs/

जब कि.

स्थान : गौतम बद्ध नगर

एनएचपीसी लिमिटेड

CIN: L40101HR1975GOI032564

पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, (हरियाणा)-121003

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रेस सूचना)

एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा "टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के तहत

ISTS (इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम) से जुड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स

तथा एनर्जी स्टोरेज से जुड़ी "फर्म और डिसपैचबल" 1200 मेगावाट पावर की

आपूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर्स के चयन (चरण-॥)" हेत पात्र

बोलीदाताओं से सिंगल स्टेज-ट्र पार्ट बिडिंग बेसिस(अर्थात भाग-।:तकनीकी-बोली

और भाग—।।: वित्तीय बोली) पर **अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली** के माध्यम से ऑनलाइन

सम्पूर्ण बोली दस्तावेज/निविदा दस्तावेज को केन्द्रीय लोक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल

http://eprocure-gov-in/eprocure/app से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट

को सीपीपी पोर्टल एवं एनएचपीसी की वेबसाइट www-nhpcindia-com के ई—प्रोक्योरमेंट

कॉर्नर के माध्यम भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि

12.04.2024 है। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://eprocure-gov-

in/eprocure/app देखें। बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट पर

अपना पंजीकरण कराना होगा। बाद के संशोधन, यदि कोई हो, केवल उपरोक्त वेबसाइटों

पर पोस्ट किए जाएंगे. इसलिए बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

र्वसाधारण को यह सचित किया जाता है कि राजनीतिक दल **भारतीय लोक समद्धि संशासन पार्टी** के नाम र रजिस्टीकत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय- 536 जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226015 में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धार 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है, पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए हैं:-

अध्यक्ष: धर्म नारायण उपाध्यार

पहासचिवः राम लखन

यदि किसी को **भारतीय लोक समृद्धि सुशासन पार्टी** के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति . नेर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड्, नई दिल्ली-110001 को इस सचना के प्रकाशन के

रेलिगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट काइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

RELIGARE I HOME पंजी, कार्यालय : 1407, 14वी मंजिल चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 निगमित कार्यालय : 8वीं मंजिल, मैक्स मकान, ब्लॉक ए, डॉ. झा मार्ग, ओखला फेज—3, ओख इंडस्ट्रियल एस्टेट, लई दिल्ली—110020

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

चृंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनगंठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (2002 को अधिनियम 54) (यहां के बाद "सरफंसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) इसका पंजीकृत कार्यात्मय, 1407, 14वीं मिलात, विरुप्तीय टांवर, 43. नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110018 प्रदा के बाद "आरएबडीएफसीएट" के संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रदर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रदर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपातन में रेलियेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉपरिशन ति, एक गैर वैकिंग वित्तीय कंपनी (मारतीय रिजर्व के साथ विविद्यत पंजीकृत) के प्राधिकृत अधिकारी ने उत्तर तुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 21.04.2021 तक ब्याज के सहित मौजूदा सुमना में वर्णित रू. 27,49,980.95/—
की राशि का मुगतान करने के लिए

क्ष प्रारंच कर नुगाम फरन के लिए <mark>. **चच देते**, पत्नी पवन कुमार 641/1, अनजानी एप्प जीएफ नई बस्ती रोड एक्सपोर्ट एन्वेलव देवली नई देल्ली–110062, अन्य पता : म. नं. 297 ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास, पुष्पा भवन, देवली, साउथ दिल्ली देल्ली–110062 अन्य पता : यस इंटोरियर्स बी–123 ए दूसरी मंजिल, फ्रींडम राइटर एन्वेलव इन्नू रोड नेक् राया, दिल्ली–110068</mark> रापन, पुरला--। 10006 राप<mark>, पवन कुमार शर्मा</mark> पुत्र जगदीश प्रसाद 641 / 1, अनजानी एप्प जीएफ नई बस्ती रोड एक्सपोर्ट एन्चेलव देवर्ल नई दिल्ली—110062, अन्य पता : म. नं. 297 ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास, पुष्पा भवन, देवली, साउथ दिल्ली

दिल्ली—110062 को बुलाने के लिए दिनांक 28.04.2021 को मांग सूचना जारी की थी। ऋणी / गारंटर राशि का गुगतान करने में असफल रहे. एतदहारा ऋणी और सर्वसाधारण को स्वित किया जात है कि अबोहरताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावतों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धार 13(4) के अंतरंगत उन्हें प्रदक्त शिक्तियमें के अनुपालन में यहां नीवित वर्णित संपत्ति पर 22 मार्च, 2024 को कका है तिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतदहारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दें जाती हैं और सर्पत्ति के साथ किया याया कोई भी तन्न देन 21.04.2021 तक व्याज और उसपर अन्य शुक्ले सहित रू. 27.48,980.95 / — की राशि के लिए 'आरपचडीएफसीएल' के प्रमार का विषय होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभृतित संपित्तयों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) वे ो का ध्यान प्रतिभूतित सापत्तया का छुड़ान का लए उपलब्द स्तनव पर सबच परणा धानों के लिए आमंत्रित हैं। **अचल संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:**

(प्राधिकृत अधिकारी) रेलिगेयर हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिनांकः 22.03.2024 स्थान : देवली, नई दिल्ली

कब्चा सूचन

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम TATAPOWER-DDL रिज, आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन् लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली—110009 फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, इम्ल : TPDDL@tatapower-ddl.com CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाईट : www.tatapower-ddl.com निविदा सूचना आमंत्रित Mar 28, 2024 टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है: बोली जमा कराने की निविदा पूछताछ सं. लागतं /धरोहर दस्तावेज जमा राशि (रु) की बिक्री TPDDL/ENGG/ENQ/200001651/23-24 1.65 Crs/ 18.04.2024;1600 Hrs 28.03.2024 Supply of Insulated Aerial Work 18.04.2024:1630 Hrs 4.15.000 TPDDL/ENGG/ENQ/200001652/23-24 RC for Professional Services 1.80 Crs/ 18.04.2024:1500 Hrs 28.03.2024 18.04.2024;1530 Hrs towards Intelligence / Enforcemen Assignment for a period of 2 Year TPDDL/ENGG/ENQ/200001653/24-25

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार पूर्व प्रकाशित संशोधित निविदा तिथि/बोली निविदा पूछताछ सं. जमा कराने की तिथि/बोली

01.04.2024

दिनांक खोलने की तिथिं TPDDL/ENGG/ENQ/200001644/23-24 04.03.2024 at 1500 Hrs/ 07.03.2024 RC for Supply of 1000 KVA Distribution 04.03.2024 at 1530 Hrs

25.20 Lacs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध website www.tatapower-ddl.com→Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents Contracts - 011-66112222 (अचल संपत्ति हेतू)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृ अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशिय असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों व उपयोग करके कर्जदार <mark>राहुल गोयल, रेनू गोयल, राज मोहन गोयल और शेरिल मेहरा</mark> को <mark>28.12.202</mark>3 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLLAJ00242306 की राशि रू.27,62,747.45/-(रुपए सत्ताईस लाख बासठ हजार सात सौ सैंतालीस और पैंतालीस पैसे मात्र) और 20.12.2023 े अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाह करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के सा उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.03.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लि सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.27,62,747.45/- (रुपए) सत्ताईर लाख बासठ हजार सात सौ सैंतालीस और पैंतालीस पैसे मात्र) 20.12.2023 के अनुसार और उस प ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्ग संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 0804 , जिसका सुपर एरिया 1000 स्के.फीट, आठवीं मंजिल पर, ब्लॉक/टॉवर -सी3 गोल्फ विलेज से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, गोल्फ कंट्री, टीएस-5 पर स्थित, सेक्टर 22-डी, यमुन एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश, एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ दिनांक: 23.03.2024

पाधिकत अधिकार्र इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिदे

स्थान : नई दिल्ली

(a) pnb Housing Ghar Ki Baat

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंत्रिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन सं. 011−23736857, ई−मेल : investor.services@pnbhousing.com CIN : L65922DL1988PLC033856, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

डाक मतपत्र की सूचना

एतद् द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों के सूचित किय जाता है कि धारा 108.110 के प्रावधानों के अनसार और कंपनी अधिनियम. 201 ''अधिनियम'') के अन्य लागू प्रावधान के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियमों, 2014 (´´प्रबंधन नियमे´´) के नियम 20 और 22, सिक्यिोरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचिकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 (''सेबी सूचीबद्धता विनियम'') के विनियमन 44 के रूप में संशोधित और अन्य लागु कानूनों और विनियमों एमसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पठित, अन्य बात साथ साथ इ–मतदान के मध्य से डाक मतपत्र आयाजित करने के लिए सामान्य पारए संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020,सं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020,सं. 39/2020 दिनांक उँ 1 दिसंबर, 2020, सं. 10/2021 दिनांक 23 जून 2021,सं. 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021,सं. 3/2022 दिनांक मई,2022,सं. 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सं. 09/2023 दिनांव 25 सितंबर, 2023,(सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपन्न'') भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसओई) द्वारा जारी और एमसीए द्वारा अधिसूचित सामन्य बैठकों पर सचिवीय मानके (एसएस–2) और संबंधित सेबी परिपत्र और अन्य लागू प्रावधान, यावि कोई हो, जिसमें कोई सांविधिक संशोधन(ओं) या पून: अधिनियमन शामिल है, जो समय –समय पर लागू और संशोधित किए गए हैं, कि निम्नॅलिखित कार्यसूची मद के लिए, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''दूरस्थई—मतदान'') के माध्यम से मतदान करके डाक मतदान र्क माध्यम से कंपनी के सदरेंयों का अनमोदन मांगा जाता है।

कार्यसूची मद और विशेष संकल्प सुश्री गीता नैय्यर, (डीआईएन: 07128438) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुन: नियुक्ति

. मसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने **बुधवार, 27 मार्च, 2024** को उन सदस्यों क इलेक्टॉनिक मोड (ईमेल) के माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण और ई–मतदान निर्देशों वे साथ डाक मतपत्र सचना का प्रेषण परा कर लिया है. जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज प्रतिभागी(ओं) द्वारा सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई दिए हैं और **शुक्रवार, 22 मार्च, 2024 (''कट-ऑफ डेट'')** को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर कंपनी / डिपॉजिटरीज, के साथ पंजीकत हैं।

डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pnbhousing.com, पर स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia. com और www.nsdl.co.in में एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

जेन सदस्यों के नाम रजिस्टर में या कट—ऑफ दिनांक के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा रखी गई लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, वे दूरस्थ ई—मतदान के माध्यम से सूचन ं निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए पात्र हैं। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ दिनांक के अनुसार सदस्य नहीं है , वह इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए मानेगा।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई–मतदान प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाएं ली हैं , ताकि सूचना मे निर्धारित विशेष संकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

ई–मतदान सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

दूरस्थ ई—मतदान की प्रारंभ होने की अवधि गुरूवार,28 मार्च,2024 , पूर्वाह्न 09 : 00 बजे(ओएसटी) दूरस्थ ई—मतदान समाप्त होने की अवधि शुक्रवार, 26 अप्रैल , 2024 , अर्पाह्र 05 : 00 बजे(ओएसटी) रस्थ ई–वोटिंग सुविधा को एनएसडीएल द्वारा 05:00 बजे (आईएसटी) **शुक्रवार,26**

अप्रैल, 2024 को के बाद अक्षम कर दिया जाएगा। रुस्थ ई–मतदान की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रक्रियाऔर अनुदेश जिसमें सदस्य अपना ईमेल पते को पंजीकृत कर सकते हैं और/या अपना वोट डाल सकते हैं, सूचना में निर्दिष्ट किए गए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने डॉ. एस चंद्रशेखरन (सदस्यता सं. एफसीएस 1644, सीपी नंबर

7 15) श्री रूपेश अग्रवाल (सदस्यता सं. एसीएस व 16302, सीपी नंबर 5673), श्री शशिकांत तिवारी (सदस्यता सं. एसीएस 11919, सीपी नंबर 13050), मेसर्स चंद्रशेखरन सोसिएट्स के भागीदारों, कंपनी सचिवों, नई दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया में एव ष्पक्ष और पारदर्शीता में संचालन के लिए ''संवीक्षाकर्ता'' के रूप में नियुक्त किया है। डाक मतपत्र के परिणामों की घोषणा सोमवार, 29 अप्रैल , 2024 को या उससे पहले

संवीक्षाकर्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की जाएगी और बीएसई लिमिटेड और नेशनल ह्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर संप्रेषित की जाएगी. जहां कंपनी के इक्विटी शेय मुचीबद्ध है और कंपनी की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com और एनएसडीएर ही वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित हों गे। ई—मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में , आप शेयरधारकों के लिए अक्स

पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल www.evoting.nsdl.com अनुभाग डाउनलोड पर उपलब्ध है य कॉल करें : 022–48867000 और 022–24997000 या सुश्री पल्लवी म्हात्रे ,वरिष्ठ ाबंधक, एनएसडील को evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें।आप nvestor.services@pnbhousing.com पर भी लिख सकते हैं।

प्रति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता./-दिनांक : 27 मार्च, 2024

वीना जी कामथ कंपनी सचिव



Primed for new AUDIENCES

Amazon Prime Video's new line-up speaks of a streaming service sure of where it is and where it wants to go

amazon prime New Series

Citadel: Honey Bunny and

new season of Suzhal-The

Vortex will soon be up for

streaming on Amazon Prime

VANITA KOHLI-KHANDEKAR Pune, 27 March

wo hundred years after the Apocalypse, people who live in luxury fallout shelters are forced to return to the irradiated hellscape their ancestors left behind. They are shocked to discover a complex and violent universe.

Fallout, a show based on a post-apocalyptic role-playing video game, will premiere worldwide on Amazon Prime Video this April. It is one among the 69 series and films original and licensed announced last week at a star-studded event in Mumbai by Amazon Prime Video. India. That is up from 40 titles in 2022.

"India has the largest slate of local original content outside the US," says Kelly Day, vice president, international.

Prime Video, part of the \$575 billion online retail giant Amazon, has more than 200 million members in 210 countries. At an estimated 22 million users, India is the largest Prime Video using country outside of the United States (78 million). Not all of them are users of the video service; they are essentially shoppers who sign on for free shipping and get a lot of other goodies, such as video and music.

Though the company does not share revenue or subscriber break ups, Media Partners Asia (MPA) estimates

Prime Video's India revenues at ₹2,500 crore in 2023 (see table). The pay and ad revenue for the entire Indian streaming market is estimated at ₹25,000 crore.

Swelling kitty

According to Ormax Media data, some of the most watched shows of 2023 (Farzi, Dahaad) and films (Bawaal) came from the Prime

Video kitty.

"Our biggest success has been driving Indian content internationally. Indian programming trended in the Top 10 on Prime Video worldwide for 43 out of the 52 weeks of 2023," says Gaurav Gandhi, vice president, APAC and MENA.

Farzi, Indian Police Force, Poacher, The Family Man, Made in Heaven and others

have found audiences in many countries. The line-up for the next two vears includes new seasons of old favourites, such as Paatal Lok, Mirzapur, Suzhal-The Vortex, and

It also offers an insight into Amazon Prime Video's India

"In any given week in 2024, they can target key demographics through their content choices. They have horrors like Khauf, action like Citadel: Honey Bunny, true crime like Daldal, unscripted like Follow Karlo Yaar documentaries like In Transit or The Great Indian Code. All of this content ticks boxes in particular ways. And they have a range of Telugu, Tamil and Kannada films. It is covering all bases.' says Daoud Jackson, senior analyst, media and entertainment, at United Kingdombased Omdia.

That is what Prime Video has been doing for the last few years, on programming, product, and distribution.

Covering all the bases

Each genre Prime is now investing in brings different audiences into the service.

"Younger customers who are more on social, get international IP (intellectual property). We are seeing a lot of our US shows like Reacher, Jack Ryan, work very well in India. That is why Fallout is big for us," says

Adapting gaming IPs to the big or small screen has made for a booming business in recent years. The Last of Us, a 2013 game, became a huge hit on its HBO release in 2023. Dungeons and Dragons, a 1974 game released as a film last year. The idea, across streaming and studios, is to get a global audience of young adults who are spending more time on Tik Tok and social media.

The young adult is one layer. In the last few years, Amazon Prime Video has commissioned and launched international crossovers, such as Citadel, invested in Tamil and Telugu shows, and in sports — a genre it believes has a huge fan following. It picked up New Zealand cricket in November 2022 even as it was picking up rights to German, English, and American Football leagues.

In November 2023 came FanCode, a sports channel that streams cricket, football, and rugby, among other sports. Why not the Indian Premier League (IPL), the most expensive and popular sports property in India?

'Sports has to make economic sense.

Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.

Address of the registered office

najority of fixed assets are located

Quantity and value of main products

ervices sold in last financial year

Further details including last available

financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant

are available at:
Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:

Last date for receipt of expression of interest Date of issue of provisional list of

Last date of issue of provisional list of prospective resolution applicants
 Last date for submission of objections to

13 Date of issue of final list of prospective

resolution applicants

14 Date of issue of information memorandum.

evaluation matrix and request for resolution

plans to prospective resolution applicants

Last date for submission of resolution plans
 Process email id to submit EOI

provisional list

lumber of employees/workme

Installed capacity of main products/ services

There has to be acquisition, engagement, and retention value of sports audiences. We evaluate each property, country by country," says Gandhi.

Then there are the 20-odd channels, such as BBC, or services like Lionsgate and Hoichoi, that Prime Video began offering from 2021 onwards. They ride on its billing and distribution relationship with users.

One of the big programming punts it made in 2022 is TVoD, or transaction videoon-demand. Think of it as a pay-per-video kind of offering, using which you can rent films such as The Devil Wears Prada (2006) or Notting Hill (1999) or Oppenheimer (2023), among 6.000 other titles.

"It is the best form of sachetising video," says Gandhi. More than 75 per cent of these 6,000 films are rented at least once a month. And 95 per cent of the PIN codes in India are covered by the cities and towns where people rent them from.

Doesn't this smorgasbord of offering dilute the Prime brand?

"To deliver on the promise of great selection we have adopted a lot of different business models," says Day.

An MPA report says much of this

multiplying was to tackle slowing subscriber growth in 2022. It points to the product and distribution changes, such as Prime Lite or Amazon miniTV (a free app), that cut across price and technology points. Gandhi reckons the service

has to cut across cities, towns, demographics, and genres if it has to have a significant play in a market as heterogeneous as India. These new tiers have driven incremental subscriber growth for the platform, says the MPA report.

That explains the investment into a huge slate this year. Nothing apocalyptic about streaming growth for now.



OUR BIGGEST SUCCESS HAS BEEN DRIVING INDIAN CONTENT INTERNATIONALLY, INDIAN PROGRAMMING TRENDED IN THE TOP 10 ON PRIME VIDEO WORLDWIDE FOR 43 OUT OF THE 52 WEEKS OF 2023"

GAURAV GANDHI, VICE-PRESIDENT, APAC AND MENA, PRIME VIDEO

Shweta Housing and Hospitality Private Limited CIN: U70100MH2007PTC170053

Sharma Bungalow, Hiranandani Complex Bhd Lake Castle View Bldg, Powai, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400076.

revenue estate of Village Jonapur, Tehsil Mehrauli, New Delhi.

N/A, there is no revenue from operations in

the company as is evident from its financial statements as on 31-03-2023.

No information is received from the

management of the Corporate Debtor.
For details, please contact at:
shwetahousingandhospitality@gmail.com
Visit website:

shwetahousingandhospitality@gmail.com

Interim Resolution Professiona IBBI Regn No.:- IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322

April 18th, 2024

April 20th, 2024

May 21st, 2024

Visit website: https://shhpl.stellarinsolvency.com/

(માટે Housing

Finance Limited Ghar Ki Baat

Read. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001

Tel. No.: +91 011-23736857, E-mail: investor.services@pnbhousing.com CIN: L65922DL1988PLC033856, Website:www.pnbhousing.com

NOTICE OF POSTAL BALLO1 Notice is hereby given to the Members of PNB Housing Finance Limited

(the "Company"), pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules"), Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations") and other applicable laws and regulations for the time being in force, and as amended, read with the guidelines prescribed by MCA inter alia for conducting Postal Ballot through e-Voting vide General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, No.22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No.10/2021 dated June 23, 2021, No. 20/2021 dated December 08, 2021, No. 3/2022 dated May 05, 2022, No.11/2022 dated December 28, 2022 and No.09/2023 dated September 25, 2023 (collectively the "MCA Circulars"), Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified by MCA, and related SEBI circulars and other applicable provisions, if any, including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof, for the time being in force and as amended from time to time that approval of Members of the Company is sought for the following agenda item, by means of Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-Voting") only.

Agenda Item and Special Resolution 1. Re-appointment of Ms. Gita Nayyar (DIN:07128438) as an Independent Director

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice alongwith the explanatory statemen and e-voting instructions on Wednesday, March 27, 2024, through electronic mode (e-mails), to those Members whose e-mail addresses appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as maintained by the Company/depository participant(s) as at the close o business hours on Friday, March 22, 2024 ("Cut-off Date") and the e-mail addresses registered with the Company/Depositories The Postal Ballot Notice is available on the Company's website, www.pnbhousing.com, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com The Members whose names appeared in the Register of Members or in the List of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cutoff date are entitled to vote on the Resolutions set forth in the Postal Ballot Notice by availing remote e-voting facility. A person who is not a Member as on the Cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing e-voting facility to all its Members, to enable them to cast their votes electronically on the Special Resolution set forth in the Notice

The e-voting facility will be available during the following period: Commencement of Remote E-Voting Period 9:00 A.M. (IST) on Thursday, March 28, 2024 5:00 P.M. (IST) on Friday, April 26, 2024 End of Remote E-Voting Period

The remote e-voting facility shall be disabled by NSDL after 05:00 PM (IST) on Friday, April 26, 2024.

The detailed procedure and instruction(s) for remote e-voting including the manner in which the Members can register their e-mail address and/or can cast their vote, are specified in the Notice

The Board of Directors of the Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran (Membership No. FCS 1644, CP. No. 715) failing him Mr. Rupesh Agarwal (Membership No. ACS 16302, CP. No. 5673), failing him Mr. Shashikant Tiwari (Membership No. FCS 11919, CP. No. 13050), Partners of M/s Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, New Delhi, as the "Scrutinizer" for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot will be announced after submission of Report by the Scrutinizer and will be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the equity shares of the Company are listed, on or before Monday, April 29, 2024 and also will be displayed on the website of the Company i.e.,www.pnbhousing.com and NSDL www.evoting.nsdl.com

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the 'Download' section www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 and 022-24997000 send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, at evoting@nsdl.com. You may also write to

Date: March 27, 2024

Place : New Delhi

investor.services@pnbhousing.com For PNB Housing Finance Limited

Veena G Kamath

Company Secretary



Multi Commodity Exchange of India Limited

Suite 1B, 1st Floor, 22/28A, Manoharpukur Road, Deshopriya Park, Kolkata – 7009 Place: Kolkata Date: 28-03-2024 For Shweta Housing and Hospitality Private Limited- Under CIRF

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR SHWETA HOUSING AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED OPERATING IN THE REAL ESTATE BUSINESS IN MUMBAI

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

RELEVANT PARTICULARS

PAN: AAKCS9010K

Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 093. www.mcxindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that following Members of Multi Commodity Exchange of India Ltd. (Exchange) have requested for surrender of their Membership of the Exchange:

Sr No	Name of the Member(s)	Member ID	SEBI Reg. No.	Timeline for Receiving Claims/ Complaints
1	. Shri Sumati Industries Private Limited	16380	INZ000074834	60 Days
2	. Indus Portfolio Private Limited	21845	INZ000170031	60 Davs

Any client(s)/constituent(s) of the above referred Members, having any claim/dispute/complaint against these Members, arising out of the transactions executed on MCX platform, may lodge their claim within the timelines as provided in the above table, failing which, it shall be deemed that no claim exist against the above referred Members or such claim, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints so lodged will be dealt with in accordance with the Bye-Laws, Rules and Business Rules of the Exchange.

The Client(s)/Constituent(s) may submit their claim on the online portal of the Exchange (https://igrs.mcxindia.com) or provide "Client Complaint Form" (available at www.mcxindia.com) in hard copy to Investor Services Department, Multi Commodity Exchange of India Ltd., Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 093 or email it at grievance@mcxindia.com.

Jpon surrender of Membership, the Authorised Person(s) (APs), if any, registered through these Members shall also cease to exist and therefore, such APs are not authorized henceforth to deal in that capacity.

For Multi Commodity Exchange of India Ltd.

Place: Mumbai Date: March 26, 2024 Authorised Signatory – Membership Department

